

Delta Industrial Resources Limited

CIN: L52110DL1984PLC019625

03/09/2022

Τo,

Department of Corporate Relations BSE Limited	Metropolitan Stock Exchange of India Limited		
P. J. Towers,	205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park, Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West), Mumbai -		
Dalal Street, Fort	400070		
Mumbai-400 001			
Security/Scrip Code: 539596	Symbol : DELTA		

Subject: Submission of Newspaper clippings -Notice of Annual General Meeting and Record Date

Dear Sir/Madam,

We enclose herewith copies of the public notice of the Annual General Meeting and Record Date published on September 03, 2022 in "English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "FINANCIAL EXPRESS" and Hindi newspaper i.e. "JANSATTA".

We request you to kindly take the above information on record

Thanking You, Yours faithfully,

For Delta Industrial Resources Limited

Pawan Kumar Mittal

Director

DIN:00749265

Encl. Newspaper copy of Notice of AGM

JINDAL POLY INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED CIN: L65923UP2012PLC051433

Distt. Bulandshahr. Uttar Pradesh - 203408 Corp Off: Plot no. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kuni, New Delhi - 110 070 Tel No; 011-40322100; E-mail Id: cs_jpifcl@jindalgroup.com; Website: www.jpifcl.com Public Notice -10"ANNUAL GERENAL MEETING

Registered Office: 19th K.M., Hapur - Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi,

This is to inform that the 10" Annual General Meeting ("AGM") of Jindal Poly Investment and Finance Co. Ltd ("the Company") will be held through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with General Circulars 2/2022 dt. May, 5 2022 and 19/2021 dt. December 08, 2021 and other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in this regard in previous years read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2. CIR/P/2022/62 dt. May 13, 2022 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars")

In compliance with the said Circulars, the Notice of the AGM containing manner to participate in E-AGM and E-Voting Process (both remote and insta) along with Annual Report for the financial year 2021-22, will be sent in due course through electronic mode ONLY, to those members whose email addresses are registered with the Company /RTA Depository Participant (DP) and will also be available on the website of the Company at www.jpifcl.com and on the website of Stock Exchanges viz National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

Members can attend and participate in the AGM only through VC(OAVM, the details of which along with manner to participate in e-voting process (both remote and insta) will be provided by the Company in the Notice of AGM. The members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act and hence Members are requested to register/update their email address by following the below procedure:

Company are requested to register/update their email address by providing the same to the Company's Registrar and Share Transfer Agent Kfin Technologies Private Limited by clinking on link https://ris.kfintech.com/ clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for receiving communication electronically or by sending an e-mail request at the email ID einward.ris@kfintech.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate for registering their email address and receiving the Annual Report, AGM Notice and the e-voting instructions.

Members who have not registerd/ updated their e-mail address with the

Register/update the details in your demat account, as per the process advised by your respective DP. Holding

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular(s). For Jindal Poly Investment and Finance Company Limited

Place: New Delhi Date: 01/09/2022 **Ghanshyam Dass Singal** Managing Director

Uma Exports Limited

Registered Office: Ganga Jamuna Apartment, 28/1, Shakespeare Sarani, 1st Floor, Kolkata 700017 CIN: L14109WB1988PLC043934 Phone: +91 33 22811396 / 7: E-mail: cs@umaexports.net.in; Website: www.umaexports.net.in

NOTICE TO THE MEMBERS OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Friday, September 23, 2022, at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC)/other Audio Video Means (OAVM) to transact the businesses as set forth in the Notice of AGM dated August 10, 2022. Electronic dispatch of the Annual Report, 2022, along with the AGM Notice have been

completed on September 1, 2022. The Notice of AGM is also available on the website of the BSE Limited (at www.bseindia.com) and the National Stock Exchange of India Limited (at www.nseindia.com). Notice is further given that the Company is providing electronic voting facility to the members to exercise their votes on all the resolutions set forth in the Notice of AGM. The company has engaged NSDL for providing e-voting facility. The details of remote e-voting are given below:

(i) The remote e-voting will commence on Tuesday, September 20, 2022 from 9.00 a.m. and ends on Thursday, September 22, 2022 till 5.00 p.m. The e-voting module shall be disabled for voting thereafter, and no one shall be allowed to vote electronically after September 22, 2022 (5:00 p.m.).

(ii) The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date i.e. September 16, 2022.

(iii) Notice of AGM has been sent to all the members whose names appeared in the Register of Members/Beneficial Owners as on August 26, 2022. Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after August 26 2022, and holding shares as on the cut-off date i.e. September 16, 2022, may obtain the Login ID and Password by sending a request at investor@masserv.com, or call at Tel: +91 33 22811396 / 7.

(iv) Once a vote is cast by the Member, he shall not be allowed to change it subsequently. The facility of casting vote through e-voting will be made available at the AGM and the elicible members attending the AGM shall be able to cast their vote at AGM viae

(vi) The Members who cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM bu shall not be entitled to cast their vote again

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual for members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Amit Vishal at evoting@nsdl.co.in

By Order of the Board of Directors For Uma Export Limited

Place: Kolkata Date: 01.09.2022

Sriti Singh Roy Company Secretary

FACOR ALLOYS LIMITED



CIN L27101AP2004PLC843252 Regd. Office: Shreeramnagar-535101, Garividi, Dist. Vizianagaram (A.P.) PHONE: +91 8952 282 029 FAX: +91 8952 282 188 Corp. Office: 160 B, Western Avenue, Sainik Farms, New Delhi - 110062, India

Phone: +91-11-4107 2935; Email: corpofice@falgroup.in; Website: www.facoralloys.in NOTICE OF 19TH ANNUAL GENERAL MEETING,

REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 19th Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Facor Alloys Limited (the 'Company') will be held on Wednesday, the 28th day of September, 2022 at 12:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM. In accordance with the General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, January 13, 2021, December 14, 2021 & May 05, 2022 (collectively called 'MCA Circulars'), the Company has completed the dispatch of Notice for the 19th AGM along with a link therein to download the Annual Report for Financial Year 2021-22, on 1st September, 2022 through only email/ electronically to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrars and Transfer Agent ('RTA')/Depositories. The physical copies of the Annual Report has not been dispatched in compliance with the aforesaid MCA Circulars read with SEBI Circular dated May 13, 2022. The copy of the Notice of AGM being the part of the Annual Report, is available on the website of the Company www.facoralloys.in as well as of the BSE Limited ('BSE') at www.bseindia.com for download. The detailed instructions for attending the ensuing AGM through 'VC/OAVM', are given in the

Further, the full Annual Report for Financial Year 2021-22 can also directly be accessed and downloaded by clicking on the following link:

http://facoralloys.in/assets/pdf/annual_report/Annual-Report-2021-2022.pdf Information regarding Remote E-Voting:

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India, as amended upto date, the Company is providing to its Members, the facility of "remote e-voting" before the AGM as well as "e-voting during the AGM", in respect of the businesses to be transacted at the ensuing AGM. For the purpose, the Company is availing the services of National Securities Depositories Limited (NSDL) to conduct the voting process in a fair and transparent manner. The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of AGM. Members are requested to note the following:

The remote e-voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-voting End of remote e-voting

From 10:00 a.m. (IST) on Sunday, September 25, 2022 At 5:00 p.m. (IST) on Tuesday,

September 27, 2022

The remote e-voting module will be disabled by NSDL thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time.

The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Wednesday, September 21, 2022 ("Cut-Off Date").

Any person who acquires shares and becomes a Member of the Company after the electronically dispatch of the Notice of AGM and holds shares as of the cut-off date i.e. Wednesday, September 21, 2022, may obtain the login ID and password for remote e-voting by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in or can use their existing credentials if already registered with NSDL.

Mr. Tumul Maheshwari, a Practising Company Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the process of "remote e-voting" as well as "e-voting during the AGM" in a fair and transparent manner.

The voting results shall be declared within the stipulated time period as specified by law. The results declared along with Scrutinizer's Report will be placed on the Company's website www.facoralloys.in as well as will also be informed and available on the website of BSE at www.bseindia.com.

Book Closure Information:

Members are requested to note that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Thursday, September 22, 2022 to Wednesday, September 28, 2022 (both days inclusive) for the purpose of convening of ensuing AGM of the Company.

Date : 2rd September, 2022 Place: Delhi

financialem epas.in

aaamedia.in

By Order of the Board For Facor Alloys Ltd. Piyush Agarwal Company Secretary

Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

Dist. Nashik, Maharashtra State

Re E-Tender Notice No. Ws/Jal-Mal/02/2022-23

The Commissioner Malegaon Municipal Corporation invites Online Tender in B-1 Format for the work of SEWERAGE SCHEME FOR MALEGAON CITY UNDER AMRUT ABHIYAN, Tal. MALEGAON, Dist. Nashik, In the State of Maharashtra, Cost of Tender Rs. 5,47,59,932/- & for all relevant information that is scope of work, time table will be made available on web site https://www.mahatenders.gov.in/ form 03/09/2022 for detailed information.

Date: 03/09/2022 to 19/09/2022 Commissioner Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

"आईये उन सभी लोगों को याद करे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहती दि."

DELTA INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED

CIN: L52110DL1984PLC019625 Regd. Office: Shop No. 325, Third Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 | Ph. No.: 011-27860681 Website: www.dirl.in | E-mail: deltaindltd@gmail.com

NOTICE

ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the members of Delta Industrial Resources Limited ("the Company") will be held on Tuesday, 27th September, 2022 at 01:00pm at 325, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

The Annual Report for the financial year 2021-22 including the Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company.

The Annual Report for the financial year 2021-22 including the Notice is available on the website of the Company (www.dirl.in) and also available for inspection at the Registered Office of the Company on all working days except Sundays and Public Holidays, during business hours up to the date of the Meeting.

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than the venue of the Meeting ("remote e-voting"). The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) as the Agency to provide e-voting facility.

The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.dirl.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Saturday, September 24, 2022 from 9:00 a.m. and end on Monday, September 26, 2022 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date, i.e., Tuesday September 20, 2022, only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Tuesday, September 20, 2022 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Annual General Meeting.

By the order of Board of Directors of For Delta Industrial Resources Limited

Pawan Kumar Mittal DIN: 00749265



Date: 02/09/2022

Place: New Delhi

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड **HINDUSTAN COPPER LIMITED** (A Government of India Enterprise)

55वें एजीएम, बुक क्लोजर एवं ई-वोटिंग की सूचना

Notice of 55th AGM, Book Closure and E-Voting

Notice is hereby given that in view of the ongoing threat posed by the COVID-19 pandemic, the 55th Annual General Meeting (AGM) of Hindustan Copper Ltd. (HCL) will be held on Wednesday, 28.09.2022 at 10:30 AM, IST through Video Conferencing/Other Audio Visual Means (VC/OAVM) in compliance with provisions of Companies Act, 2013 and Rules notified there under (the Act) read with MCA Circulars dated 08.04.2020, 13.04.2020, 05.05.2020, 13.01.2021, 14.12.2021 05.05.2022 and SEBI Circular dated 13.05.2022 (collectively referred to as "the Circulars"). Notice of AGM containing the business to be transacted at AGM along with Annual Report 2021-22 has been sent to the Members at their email ID registered with HCL/Depository Participant / Registrar and Transfer Agent, as the case may be and physical copy to those Members who requested for the same. Sending of Notice and Annual Report has been completed on 02.09.2022.

Notice is further given that the Register of Members and Share Transfer Books of HCL will remain closed from 22.09.2022 to 28.09.2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM and payment of dividend for FY 2021-22.

HCL is providing facility to its Members holding shares as on 21.09.2022 (cut-off date) to exercise their right to vote by electronic means (remote e-voting) through National Securities Depository Ltd (NSDL). The remote e-voting period commences on 25.09.2022 (9:00 am) and ends on 27.09.2022 (5:00 pm) and shall be disabled by NSDL for voting thereafter. HCL will also provide facility for e-voting during AGM which can be availed by Members attending AGM by VC/OAVM and did not cast their vote by remote e-voting. Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend AGM but shall not be entitled to vote again at AGM. Vote once cast cannot be modified. Person(s) becoming Member(s) after issue of AGM Notice and holding shares as on cut-off date may obtain the user id and password by sending a request to NSDL at evoting@nsdl.co.in. The process and manner of attending AGM through VC/OAVM and voting on resolutions either by remote e-voting or e-voting on the day of AGM is given in notes to AGM Notice. The AGM Notice is available on HCL's website www.hindustancopper.com, NSDL's website www.evoting.nsdl.com and on the Stock Exchanges websites www.bseindia.com and www.nseindia.com. In case of any queries / grievance with respect to voting by electronic means. Members may refer the Frequently Asked Questions for Members and remote e-voting user manual for Members available at the download section of www.evoting.nsdl.com or may contact Mr. Amit Vishal, AVP / Ms. Pallavi Mhatre, Sr. Manager, NSDL, at toll free no. 1800 1020 990 / 1800 22 44 30 or at E-mail ID: evoting@nsdl.co.in For Hindustan Copper Ltd

(C S Singhi)

स्थान/Place : Kolkata तिथि/Date : 02.09.2022

ED (Co Secretary) Tel: (033) 2283 2226, Fax: (033) 2283 2478 E-mail: investors_cs@hindustancopper.com





Regd. Office:- The Capital Court, 6th Floor, OLOF Palme Marg, Munirka New Delhi - 110067

Email:-compliance@gogiacap.com, Website:- www.gogiacap.com, Contact no: 011-49418888

NOTICE

Notice is hereby given that 28th Annual General Meeting (AGM), of members of Gogia Capital Services Limited will be held on Friday, 30th September 2022 at 10:30 A.M. at The Capital Court, 6th Floor, OLOF Palme Marg, Munirka, Delhi-110067, to transact the businesses given in Notice.

The copy of Notice of AGM, Attendance Slip, Proxy Form and Route Map are being sent only by electronic mode to those members whose email address is registered with the Company/Depositories. Members may note that Notice of AGM and Annual Report 2021-2022 will also be available on company's website www.gogiacap.com.

Pursuant to Section 91 of Companies Act, 2013 and as per Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 24th September 2022 to Friday, 30th September 2022 (both days inclusive).

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and voting at AGM is 21st September 2022.

The remote e-voting period commences on Tuesday, 27th September, 2022 (9.00 am) and ends on Thursday, 29th September, 2022 (5.00 pm), after which e-voting will not be allowed. The facility of voting by papers and polling will also be made available at the AGM Venue

to the members who did not cast their votes through e-voting. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of

For Gogia Capital Services Limited

Place: Delhi Date: 03.09.2022

www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990.

Satish Gogia Managing Director

JINDAL POLY FILMS LIMITED [CIN: L17111UP1974PLC003979]

Registered Office: 19" K.M., Hapur-Bulandshahr Road P.O. Gulaothi,

Distt. Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203408, Tel No. 05732- 228057 Corporate Office: Plot No. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070, Phone: (011) 40322100, Fax: (011) 40322129 Email: cs_jpoly@jindalgroup.com, Website: www.jindalpoly.com Public Notice -48"ANNUAL GERENAL MEETING

This is to inform that the 48"Annual General Meeting ("AGM") of Jindal Poly Films Limited ("the

Company") will be held on Friday 301 September, 2022 at 3:00 p.m. through video conferencing VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with General Circulars 2/2022 dt. May, 5 2022 and 19/2021dt. December, 08 2021 other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in this regard in previous years read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2022/62 dt. May 13, 2022 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars"). In compliance with the said Circulars, the Notice of the AGM as approved by the Board on August 30,2022 containing manner to participate in E-AGM and E-Voting Process (both remote and insta) along with Annual Report for the financial year 2021-22, will be sent in due course through electronic mode ONLY, to those members whose email addresses are registered with the Company /RTA/ Depository Participant (DP) and will also be available on the website of the Company at www.jindalpoly.com and on the website of Stock Exchanges viz National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com. and BSE Limited at www.nseindia.com. Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM, the details of which along

with manner to participate in e-voting process (both remote and insta) will be provided by the Company in the Notice of AGM. The members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act and hence Members are requested to register/update their email address by following the below procedure Physical Members who have not registerd/updated their e-mail address with the Company are

Holding requested to register/update their email address by providing the same to the Company's Registrar and Share Transfer Agent Kfin Technologies Private Limited by clinking on link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx for receiving communication electronically or by sending an e-mail request at the email ID einward,ris@kfintech.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate for registering their email address and receiving the Annual Report. AGM Notice and the e-voting instructions.

Register/update the details in your demat account, as per the process advised by you Holding respective DP The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the

Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular(s). For Jindal Poly Films Limited

> Sunit Maheshwari Company Secretary

Place: New Delhi Date: 02/09/2022

CIN: L22222UP2011PLC103611 Registered Office: 19" K.M., Hapur - Bulandshahr Road, P.O. Gulaothi, Distt. Bulandshahr. Uttar Pradesh - 203408

Corp. Off: Plot no. 12, Sector B-1, Local Shopping Complex, Vasant Kunj, New Delhi-110 070 Tel No; 011-40322100; E-mail Id: cs_uphoto@universusphotoimagings.com

UNIVERSUS PHOTO IMAGINGS LIMITED

Website: www.universusphotoimagings.com Public Notice -11°ANNUAL GERENAL MEETING

This is to inform that the 11"Annual General Meeting ("AGM") of Universus Photo Imagings Ltd ("the Company") will be held on Friday 30" September, 2022 at 4:30 p.m. through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) in compliance with General Circulars 2/2022 dt. May. 5 2022 and 19/2021 dt. December, 08 2021 other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) in this regard in previous years read with Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dt. May 13, 2022 issued by SEBI (hereinafter collectively referred to as "the Circulars").

In compliance with the said Circulars, the Notice of the AGM as approved by the Board on August 30,2022 containing manner to participate in E-AGM and E-Voting Process (both remote and insta) along with Annual Report for the financial year 2021-22, will be sent in due course through electronic mode ONLY, to those members whose email addresses are registered with the Company /RTA/ Depository Participant (DP) and will alsobe available on the website of the Company at www.universusphotoimagings.com and on the website of Stock Exchanges viz National Stock Exchange of India Limited (NSE) at www.nseindia.com and BSE Limited at

Members can attend and participate in the AGM only through VC/OAVM, the details of which along with manner to participate in e-voting process (both remote and insta) will be provided by the Company in the Notice of AGM. The members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of quorum under section 103 of the Act and hence Members are requested to register/update their email address by following the below procedure: Physical

Members who have not registerd/updated their e-mail address with the Company are requested to register/update their email address by providing the same to the Company's Registrar and Share Transfer Agent Kfin Technologies Private Limited by clinking on link https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx_for receiving communication electronically or by sending an e-mail request at the email ID einward.ris@kfintech.com along with signed scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and copy of share certificate for registering their email address and receiving the Annual Report, AGM Notice and the e-voting instructions

Register/update the details in your demat account, as per the process advised by your Demat Holding respective DP

The above information is being issued for the information and benefit of all the members of the Company and is in compliance with the MCA Circular(s) and the SEBI Circular(s).

For Universus Photo Imagings Limited

Place: New Delhi Date: 02/09/2022

Suresh Kumar Company Secretary

CAPROLACTAM CHEMICALS LIMITED (CIN: L24110MH1988PLC049683)

Regd. Office: B/31, MIDC, Mahad, Dist. - Raigad - 402302 E-mail: caprolactam@gmail.com, website: www.caprolactam.co.in

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 33" Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held

on Thursday, 29th September, 2022 at 11:00 a.m. through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, as set out in the Notice AGM. The Company has sent the Notice of AGM on Saturday, 03 September, 2022 through electronic mode to Members whose email addresses are registered with the Company/Depositories in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8. 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI Circular dated May 12, 2020. The Annual Report for Financial Year 2021-22 is available and can be downloaded from the Company's website http://caparolactam.co.in and the website of Central Securities Depository Limited (CSDL) www.evotingindia.com. In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Member are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the Notice of the AGM using electronic voting system (e-voting) provided by CSDL. The voting rights of Members shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid -up equity share capital of the Company as on Thursday 22" September, 2022 ('cut -off date'). The remote e-voting period commences on 25" September, 2022 (9:00 a.m.) and ends on 28" September, 2022 (5:00 p.m.). During this period, Members may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CSDL thereafter. Those Members, who shall be present in the AGM 'through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing. so shall be eligible to vote through remote e-voting system during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM. through VC/OAVM shall not be entitled to cast their votes again. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company, and holds shares as of the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to helpdesk,evoting@cdslindia.com. However, if he/she is already registered with CSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes. In compliance with the General Circular numbers 20/2020, 14/2020, 17/2020 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for fiscal 2022 will be sent to all the shareholders whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s). Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depositary participants. Shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their email addresses and mobile numbers with the Company's Registrar and Share Transfer Agent Purva Sharegistry (I) Pvt. Ltd. at support@purvashare.com. The notice of the 33" AGM and Annual Report for fiscal 2022 will also be made available on the Company's website, at www.caprolactam.co.in, stock exchange websites and on the CSDL's website, at https://www.evoting.csdl.com. For details relating to remote e-voting, please refer to the Notice of the AGM. If you have any gueries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting

System, you can write an email to helpdesk evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542/43. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25° Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43. The details of the AGM are available on the website of the Company at www.caprolactam.co.in, CSDL at 'www.evoting.cdsl.com, BSE Limited at www.bseindia.com.

Sd/- Zaver S. Bhanushali

Place: Mumbai

Date: 03/09/2022

For Caprolactam Chemicals Limited

Managing Director

DIN - 00663374

PANACHE INNOVATIONS LIMITED CIN: L51100MH1981PLC312742

Registered & Corporate Office: Office No. 105, Primus Business Park, Plot No. A-195, Road No. 16/A, Ambika Nagar No. 2, Wagle Industrial Estate,

Thane - 400604, Maharashtra, India. Mob: +91 8291529934, Email: compliance@panachemodera.com

Website: www.panachemodera.com

NOTICE OF 41ST ANNUAL GENERAL MEETING Notice is hereby given that pursuant to the circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs;

the 41st Annual General Meeting ("AGM") of the members of PANACHE INNOVATIONS LIMITED ("the Company") will be held on Wednesday, September 28, 2022 at 3:00 p.m. IST hrough video conferencing facility without any physical presence of members. The process of participation in the AGM will be provided in the Notice of the AGM. Notice of the AGM along with the Annual Report will be sent only through electronic mode to

No physical copies of Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member. Members may note that Annual Report will also be available on the Company's website i.e. www.panachemodera.com, website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com and on the website of CDSL i.e. www.evotingindia.com being the agency appointed by the Company for providing e-voting and VC/AOVM facility for the AGM. Members holding shares in dematerialized form, are requested to register their email address and mobile number with their Depository Participants and members holding shares in physical form are requested to furnish details of email address and mobile number to the RTA at nichetechpl@nichetechpl.com.

in dematerialization form, physical form and members who have not registered their email addresses is provided in the Notice of the AGM. The facility of e-voting will also be provided at the AGM and members attending the AGM, who have not cast their votes by remote e-voting will be able to vote at the meeting. The Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM,

instructions for joining AGM, manner of casting vote through remote e voting and E voting during the AGM through VC/AOVM. Members may contact Company Secretary at compliance@panachemodera.com for any grievances related to remote e-voting,

Place: Mumbai Date: September 2, 2022

Company Secretary & Compliance Officer

Regd. Office: Unit No. 421, 4th Floor, Pearl Omaxe, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi-110034 Tel: +91 11 41681828, +91 11 27371334 Web: www.rciind.com, Email:compliance@rciind.com NOTICE OF THE 31^{5T}ANNUAL GENERAL MEETING (AGM).

through Video Conferencing ("VC")/Other Audio-Visual Means ("OAVM") on Friday, 30" September, 2022 at 10.30 a.m. (IST) to transact the business, as set out in the Notice of the 31" AGM n accordance with the applicable provisions of Companies Act, 2013 and Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulation, 2015, read with General Circular No. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 dated 08 April, 2020, 13" April, 2020, 05" May, 2020 and 13" January, 2021 respectively and other

2020 and 15° January, 2021, respectively, the Notice of 31" AGM and Annual Report have been sent in electronic mode, only to the members whose e-mail addresses are registered with the company/the depository participants. The requirement of sending physical copy of the Notice of AGM and Annual Report to the members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The electronic dispatch of Annual Report to the Members has been completed on 03rd September, 2021. The aforesaid Notice and Annual Report are available on the website of the Company i.e. www.rciind.com and website of the stock exchange i.e. www.bseindia.com. compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of he Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEB! (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and

Secretarial Standards on General Meeting (SS-2), the Company is pleased to provide remote @ocedure/instructions in this respect-have been provided in notes to the Notice of AGM proportion to their shares of the paid up equity share capital of the Company as on the Cut-off Date

disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote ona resolution is cast by the members hrough remote e-voting, he shall not be permitted to change it subsequently. Members who have cast their votes through remote e-voting prior to AGM may also attend the AGM but shall not be ntitled for cast their votes again. Any person, who acquires shares and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the out-off date i.e. Friday, 23 September 2022 may obtain the ogin ID and password by sending a request at evoting@insdl.co.in. However, if you are already

Secretary has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair and Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register

themselves by sending request mentioning their name, demat account/folio number, email id, mobile number through their registered e-mail to the Company at compliance@rciind.com on or before 23" September, 2022 along with the copy of signed request letter mentioning the name and

Shareholders holding shares in dematerialized mode are requested to register update their email addresses with their Depository Participants

n case of any queries relating to e-voting or attending AGM through VC/OAVM, members may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for the Shareholders and e-voting user manual for 1800-1020-990 or 1800-224-430 or send a request at <u>evoting@nsdl.co.in</u> or contact National Securities Depository Limited, Trade World, A Wing; 4" Floor, Kamala Mill Compound, Senapati

Rapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email id:- evoting@nsdi.co.in.

Place: New Delhi

Priya Rastogi

Date: 03"September, 2022 (Company Secretary)

Dalmia OCL

NOTICE OF THE 16th ANNUAL GENERAL MEETING AND

NOTICE is hereby given that the 16th Annual General Meeting ('AGM') of the members of Dalmia Bharat Refractories Limited ('Company/ DBRL') will be held on Tuesday, the 27th day of September, 2022 at 11:00 A.M. at the registered office of the Company situated at Dalmiapuram, P.O. Kallakudi-621651, Distt. Tiruchirappalli, Tamil Nadu for transacting the

ousinesses as stated in the Notice dated August 01, 2022

In terms of applicable provisions of the Act and circulars/ notification issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') from time to time, the Notice of the AGM, Annual Report of the nembers whose names are recorded in the register of members/register of beneficial owners as on August 26, 2022 by electronic mode at the email address available with the Company

In terms of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the Companies

Date of completion of electronic dispatch of the AGM Notice: September 02, 2022

Date and time of commencement of remote e-voting: Saturday, September 24, 2022 at

Date and time of end of remote e-voting: Monday, September 26, 2022 at 5:00 P.M. (IST) The cut-off date as on which the voting of shareholders shall be reckoned: Wednesday, In case a person becomes a shareholder of the Company after the dispatch of AGM notice

the login ID and Password. Remote e-voting by electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 P.M. IST on

who could not vote through remote e-voting may do the voting through Insta-Poll / ballot paper at the AGM. The shareholders whose name are recorded in the Register of Members or in the list of beneficial owners provided by depositories as on the cut-off date are only entitled to avail the facility of remote e-voting or voting in the AGM The shareholder who have casted their vote once on a resolution shall not be allowed to

with its rules made thereunder, as amended from time to time, the Register of the Members and Share Transfer Books will remain closed from Monday, September 26, 2022 to Tuesday, September 27, 2022 (both days inclusive) for the purpose of the said AGM and for determining the entitlement of the members for the final dividend, if approved for the financial year 2021-22. For those members whose email id is not registered with the Company, may register their

along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for the necessary updations. 1. The Company has appointed Mr. R. Venkatasubramanian, Company Secretary in Practice

evoting kfintech.com or contact M/s KFIN Technologies Limited, at Tel No. -1-800-309-4001(toll free) or Ms. Meghna Saini, Company Secretary, 4, Scindia house, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel-011-23457114, Email: snccil@dalmiarf.com

> By Order of the Board of Directors For Dalmia Bharat Refractories Limited

Dated: September 02, 2022

September 26, 2022

Meghna Saini Company Secretary Membership No-A42587

those Members whose email addresses are registered with the Company's RTA/ Depositories.

Members will have an opportunity to cast their votes on the business set forth in the Notice of the AGM through remote e-voting. The manner of remote e-voting for members holding shares

For Panache Innovations Limited Saloni Hurkat

RCI INDUSTRIES & TECHNOLOGIES LIMITED

RCI CIN: L74900DL1992PLC047055

E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the 31" Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held

applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and SEBI Circular no. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIRP/P/2020/79 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 12° May,

voting facility to its members, to vote from a place other than venue of AGM through VC/OWVAM facility and e-voting during the AGM through National Securities Depository Limited (NSDL). The The members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. 23rd September 2022, shall be eligible to cast vote by remote e-voting or attend the meeting through VG/OAVM and cast vote atAGM. The voting rights of members shall be in The remote e-voting period shall commence on Tuesday 27th September 2022 (09.00 A.M. IST and end on Thursday 29" September, 2022 (05.00 P.M. IST). The remote e-voting module shall be

egistered with NSDL for remote e-voting then you can use your existing user ID-and password for Mr. Gaurav Shah, Company Secretary (Membership No. FCS: 46647), Practicing Company

address of the shareholders, self-attested copy of PAN/other identity and address proof.

Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no:

For RCI Industries and Technologies Limited

Registered Office: Dalmiapuram, P.O. Kallakudi, Tiruchirappalli-621 651, Tamil Nadu Phone: 011-23457100, E-mail: snecil@dalmiarf.com Website: www.dalmiaocl.com CIN: U26100TN2006PLC061254

DALMIA BHARAT REFRACTORIES LIMITED

E- VOTING INFORMATION

Company for the year 2021-22, the Attendance Slip and Proxy Form has been sent to those Depository Participant(s). For the members who are holding shares in physical mode and whose email address are not registered with the Company, can access the said notice of AGM and Annual Report at the website of the Company i.e. www.dalmiaocl.com and also on the website of KFIN Technologies Limited ('KFIN/ RTA') at https://evoting.kfintech.com/our

(Management and Administration) Rules, 2014 and applicable provisions of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, as amended from time to time. the Company is pleased to provide the facility of remote e-voting to all the members to cast their vote by electronic mode through RTA of the Company on all resolutions set out in the

Notice dated August 01, 2022. The details of the facility are given hereunder:

but on or before the cut-off date, i.e. September 21, 2022, the shareholder may write to RTA via email id i.e. einward.ris@kfintech.com or Contact No. 040-67162222, to obtain

The shareholders who have cast their vote through the remote e-voting facility may participate in the AGM but shall not be allowed to vote again at the AGM. Shareholder

change it subsequently or cast the vote again The Notice of the AGM along with the procedure for remote e- voting, has been sent. to all the shareholders electronically and the same is also available on the website of the Company at www.dalmiaocl.com, and on the website of RTA at https://evoting.kfintech.com. Notice is also hereby given that in terms of section 91 of the Companies Act, 2013 read

email address by sending an e-mail request at the email id einward ris@kfintech.com

as the scrutinizer to scrutinize the remote e-voting process and e-voting at the AGM through Insta-Poll / ballot paper in a fair and transparent manner. For any further queries/grievances connected with e-voting, you may refer Frequently Asked Question (FAQs) and e- voting User Manual for shareholders available at https://

New Delhi

Place: New Delhi

Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

Dist. Nashik. Maharashtra State

Re E-Tender Notice No. Ws/Jal-Mal/02/2022-23

The Commissioner Malegaon Municipal Corporation invites Online Tender in B-1 Format for the work of SEWERAGE SCHEME FOR MALEGAON CITY UNDER AMRUT ABHIYAN, Tal. MALEGAON, Dist. Nashik, In the

State of Maharashtra, Cost of Tender Rs. 5,47,59,932/- & for all relevant information that is scope of work, time table will be made available on web site https://www.mahatenders.gov.in/

form 03/09/2022 for detailed information. Date: 03/09/2022 to 19/09/2022

Commissioner Malegaon Municipal Corporation, Malegaon

"आईये उन सभी लोगों को याद करे जिन्होंने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहती दि."

आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड RCI **सीआईएन** L74900DL 1992PLC047055 पंजीकृत कार्यालय रू इकाई सं 421, चौथी मंजिल, पर्ल ओमेक्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली-110034, दूरमाष :+91 11 41681828,+91 11 27371334 वेब :: www.rciind.com, ई-मेल :compliance@rciind.com

> 31वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), ई-वोटिंग जानकारी तथा बुक क्लोजर की सूचना

एतद्वद्वारा सूचना दी जाती है कि 31वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार व्यवसाय के लेन-देन के लिए कंपनी की 31वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो-विज्अल माध्यम ("ओएवीएम") के माध्यम से शुक्रवार 30 सितम्बर, 2022 को प्रातक्त 10.30 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.)

आयोजित की जाएगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों तथा सामान्य परिपन्न संख्या 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021 क्रमशरू दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई, 2020 और 13 जनवरी. 2021 के साथ पठित भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 तथा कॉपोरेंट मामले मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अन्य लाग परिपत्रों और

सेबी परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी1 / सीआईआरपी / पी / 2020 / 79 तथा सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 क्रमशरू दिनांक 12 मई. 2020 और 15 जनवरी, 2021 के अनुसार 31वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में केवल उन सदस्यों के पास भेजी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनीधंडिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 03 सितंबर, 2021 को पूरा कर लिया गया है। उपरोक्त सुचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट यानी www.rciind.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों तथा सामान्य बैठक (एसएस-2) पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, कंपनी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के माध्यम से अपने सदस्यों को वीसी/ओडब्ल्यूवीएएम सुविधा के माध्यम से एजीएम के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान से मतदान करने एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रही है। इस संबंध में प्रक्रियाध्निर्देश-एजीएम की सूचना के नोटस में प्रदान किए गए हैं।

कट-ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2022 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने या वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने तथा एजीएम में मतदान के पात्र होंगे। सदस्यों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के अनुपात में होंगे, रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार 27 सितंबर 2022 (09.00 पूर्वा. भा.मा.स.) पर शुरू होगी और गुरुवार 29 सितंबर, 2022 (शाम 05:00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त होगी। इसके बाद मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। एक बार सदस्यों द्वारा रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से एक संकल्प पर वोट देने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग के जरिए वोट डालने वाले सदस्य भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति, जो शेयर प्राप्त करता है और सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और

कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 23 सितंबर 2022 तक शेयर रखता है, वह evoting@insdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि आप रिमोट ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजुदा युजर

श्री गौरव शाह, कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएसरू 46647), प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव को ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे 23 सितंबर, 2022 तक या इससे पहले अपना नाम, डीमैट खाता / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए कंपनी के पास अपने पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से compliance@rciind.com पर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति के साथ शेयरधारकों के नाम और पते, पैन / अन्य पहचान और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस

ई-वोटिंग या वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions (FAQs) और e-voting नेमत उंदनंस वित Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-1020-990 या 1800-224-430 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए-विंग, 4था तल, कमला मिल कंपाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 से निर्धारित ईमेल आईडी evoting@nsdi.co.in पर संपर्क करें।

> कृते आरसीआई इण्डस्ट्रीज एण्ड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड प्रिया रस्तोगी

स्थान : नई दिल्ली तिथि : 3 सितम्बर, 2022 कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

(Co kotak पंजीकत कार्यालयः 27वीकेसी . सी-27, जी-व्लॉक, बांडा कर्ला कॉम्प्लेक्स, बांडा (पूर्व), मुंबई- 400051 बी.ओ: कोटक महिदा बैंक लिमिटेस. 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर 7. सेक्टर-125. निकट डेल कैंपस. नोएस. उत्तर प्रदेश- 201313

आप नीचे रहिन्तिसन उद्यासकर्ता और सद-उद्यासकर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों (प्रतिभतियों) को गिरवी स्थानर बैंक / विसीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया है. जिसका विशेष रूप से यहां वर्णन किया गया है और इसके पुनर्भुगतान में आपने चूक की है। आपकी चुक के परिणामस्वरूप, आपके ऋगों को गैर–निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था और उक्त ऋण खाती को नीचे उहिलक्षित असाइनमेंट के अलग—अलग कार्यों के माध्यम से समी अधिकारों, शीर्षकों और हितों के साथ, जाय लाम को कोटक महिंदा बैंक लिमिटेड के पक्ष में सींप गया है, बैंक ने उन्त असाइनमेंट के अनुसार और बकाया राशि की वसूनी के लिए, वितीय संपत्ति के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित प्रकान अधिनियम, 2002 (अधिनियम) की धारा 19(2) के तहत मांच चोटिस जारी किया नया, जिसकी सामग्री प्रतिकृति हिंद (प्रवर्तन) निवम, 2002 के नियम 3(1) के साथ पठित अधिनियम की वारा 13(2) के अनुसार और आप पर वैकल्पिक सेवा के रूप में यहां प्रकाशित की जा रही है। तवारकर्ता, सह-जवारकार्ताओं, प्रतिभृतियों, ऋणदाता, बकाया देव सांवे, धारा (3/2) के तहत केले गए दिमांद्र नोटिस और उसके तहत दावा की गई राजि का विवरण नीचे दिया गया है:

अचल संपत्ति का विवरण

ववारकर्ता . सह-ववारकर्ता का नाम और पता उत्तप खाता संख्या ऋण की चरित्र

मैसर्स सार्व कंस्ट्रवशन (इसके अधिकत साझेदार की तलसी पर के माध्यम सं) और श्रीमती लज्जावती वास्ते श्री दलसी चन और सुधी निपंका पुत्री श्री तुलसी राम और भी तुलसी राम पुत्र भी स्वामी दीन सभी निवासी: 309 / S10, तीसरी मंजिल एमएसएक्स दूसरा सेक्टर, आत्पत -। ग्रेटर नोएडर जलर परदेश। इसके अनावा यहाँ भी : मकान सं 113, आदर्श वर्गेलोनी, बिहारीपुरिया गांव - युवाहेरा तहसील-लोगी. गाजियाबाद, जलर मरदेश २०१००१ । इसके अलावा सकी : 1. 58, डेक्टा t, खेटर सीएडा, खूपी। खाता संख्या LNDEL00615&160000154 स्वीकृत ऋण राशिः र

35,48,303 /- (पैतीस लास)

अववादीस कवार तीन भी तीन

संपत्ति 1. प्लॉट मापक्षेत्र 83 वर्ग गज, छसरा नंबर 32/4 मिन. गली नंबर 10. आदर्श कॉलोनी, बिहारीपुरा गांव **3. मांग** दंडाहेरा परमना लोगी,तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर दिनांक प्रदेश। **संपत्ति 2** प्लॉट मापक्षेत्र 56 वर्ग गज, खसरा नं. 🛦 🐯 **में देश राशि** 32/3 मिन, गली नंबर 8, आदर्श कॉलोनी, बिहारीपरा गांव इंडाहेडा परचना लोनी तहसील और जिला -गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। **संपत्ति ३**. प्लॉट मापक्षेत्र ५० वर्ग गज, खसरा **१ एस्सेस**

। अध्यादाता का नाम

नंबर 31/3 मिन, गली नंबर 11, आदर्श कॉलोनी, विहारीपुरा विजनेस गांव दुंडाहेडा परगना लोनी तहसील और जिला- लिमिटेड गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। **संपत्ति 4**. प्लॉट मापक्षेत्र 50 वर्ग 2, 18.02.2020 गज, खसरा नंबर 31/3 मिन, गली नंबर 10, आदर्श 3 17.08.2022 कॉलोनी, बिहारीपुरा गांव दंडाहेडा परगना लोनी तहसील 4 रू 44.27.587 /-और जिला-गाजियाबाद, जत्तर प्रदेश। **संपत्ति ६**. प्लॉट (चवालीस लाख मापक्षेत्र 50 वर्ग गज, एच. नं. 113, खसरा नं. 31/3 मिन, शलाईश हजार पांच गली नंबर 10. आदर्श कॉलोनी, विहारीपुरा गांव दुंबाहेंबा सी सलासी रुपये परगना लोनी तहसील और जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मात्र) 18.08.2022 बन्धक का नामः श्री तुलली राम पुत्र श्री स्वामी दीन और से पूर्ण भूगतान तक श्रीमती लञ्जावती पत्नी श्री तुलसी राम। लाग् ब्याज के साथ 17.08.2022 日年 बकाया और देय।

इसलिए आप उधारकतो और राह-जपारकार्ज / ओ को इस नोटिस के का विनो से मीतर फाक छरिनकित मांगी गई पूर्व चारी के साथ अविरिक्त Da का मुख्यान करने के लिए कहा जाता है. जिसके विकल होने पर अवेहरसासरी चपपुंक प्रतिमृतियों को लागू करने वाले अधिनियन के rea कार्रवाई करने के लिए बाह्य होना होगा। आपका ध्वान अधिनियन की खारा 13 की यम-धारा (a) के सकवानी की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके आधार पर आप पूर्वोत्त प्रावधान में निर्धारित अवधि के मीतर प्रतिमृति चर्चात को मुनाने के लिए पुरातान करने के लिए स्वतात्र है। कुपया प्यान दें कि एक अधिनियम की धारा 18(13) के अनुरक्षर, आपको हनारी सहमति के किना किकी, पहें या अन्यक्षा के मध्यन से परोक्त संदर्भित प्रतिनतियों का स्थानांतरित करने से रोक दिया नया है। स्थानः गाणियाबाद, दिनाकः 08.09.2022 समिकृत अधिकारीः कृते कोटक महिदा बैंक लिमिटेड

द दिल्ली सेफ डिपॉजिट क. लि.

(CIN: L74899DL1937PLC000478) पंजी. कार्यालयः 86, जनपथ, नई दिल्ली-110001 (भारत) टेली.: 011-43580400, 23320084, 23321902 ईमेल:delsafe@dsdgroup.co.in, वेब: www.dsdgroup.co.in

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड के शेयरधारकों की 84वीं एजीएम कोविड-19 महामारी की अनवरतता के कारण विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'') अन्य ऑडियो विज्अल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 को 10.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जाएगी जिसमें एजीएम की सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जाएगा। कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने (सर्क्युलर तिथि 8.4.2022, 13.4.2020, 5.5.2020, 13.01.2021 तथा 05.5.2022) तथा सेबी ने (सक्युर्लर तिथि 12.5.2020, 15.01.2021 तथा 13.05.2022) के द्वारा सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां शेयरधारकों को भेजने से छूट दी है तथा साथ हीं वर्ष 2022 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से वार्षिक आम सभा (एजीएम) के आयोजन की अनुमति दी है।

हम एतदद्वारा सभी शेयरधारकों से आग्रह करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सचना तथा कम्पनी से अन्य सभी सुचनाओं के प्रेषण के लिये अपना ईमेल आईडी अद्यतन करा लें। कपया ध्यान रहे कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट की कोई भौतिक प्रति सदस्यों को एजीएम के दौरान अथवा उसके बाद नहीं भेजी जाएगी।

डिमैटरियलाइज्ड पद्धत्ति में शेयरधारित करने वाले शेयर धारकों से आग्रह है कि ईमेल पता, बैंक मैन्डेट्स तथा मोबाईल नं. को अद्यतन करने के लिये अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स से

भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों से आग्रह है कि अपना नाम, फोलिय नम्बर, शेयर प्रमाणपत्र (फ्रान्ट एवं बैक) की स्कैन्ड कॉपी, पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी तथा आधार कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन्ड कॉपी प्रस्तुत कर रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेन्ट-बिग शेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के पास अपना i) ईमेल आईडी तथा ii) बैंक मैन्डेट पंजीकृत/अद्यतन करा लें।

वांछित दस्तावेजों के साथ उक्त विवरण बिग शेयर सर्विसेस प्रा.लि.-आरटीए के पास ईमेल आईडीः investor.del@bigshareonline.com पर भेजी जा सकती है।

कत्ते. द दिल्ली सेफ डिपॉजिट कम्पनी लिमिटेड

विजय कुमार गुप्ता स्थानः नर्ड दिल्ली प्रबंध निदेशक/सीईओ DIN-00243413 तिथि: 3.9.2022

CÁPRI GLOBAL CAPITAL LIMITED

कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय : 502, टॉवर-ए, पेनिनसुला विभिनेस पार्क, सेनापति वापत मार्ग, लोकर परेल, मुम्बई-400013 सकिल कार्यालय : केप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, 9-बी, दुसरी मंत्रिल, पुसा रोड, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110005

परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधान देखें]

(कम्पनी सचिव)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना प्रतिभूति हिल (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित विसीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हिल प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सचना। एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जपानती(चों) को सचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास वंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभूत लेनदार हारा रचनात्मक,भीतिक कब्जा कर लिया गया है, नीचे वर्णित कर्नदार से कैप्री म्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभृत लेनदार के नीचे वर्णित राशि की वसली हेत निम्नलिखित तिथियों पर ''जहाँ है जैसे है'', ''जो है यही हैं " तथा " जो कुछ भी है वहीं हैं " आधार पर विक्री की जायेगी। आरक्षित मृल्य, इंएमडी राज़ि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे वर्णित हैं।

क्र.सं.	1. कर्जदार(रों) का नाम 2. बकाया गणि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	समय	अप्तरिक्षत मृल्य : रु. 39,50,000/- (रुपः उनतालीस लाख पचास हजार मात्र) जमा धरोहर राशि : रु. 3,95,000/- (रुपये ती
2. श्री राम ना 3. श्रीमती राव ऋण खाता सं. LNCGCKI रुपये 62,40,	 मैससं ओ.पी. टिम्बर मर्चेट ("कर्जदार") श्री राम नारायण श्रीमती राज वार्ड (सह-कर्जदार) 	मकान नं. 554, खेवत/खाता सं. 5413/7025 में से, खसरा नं. 12716/3490/908-910, 3582/999 (0- 0-13.5) में से, फिरोज गांधी कॉलोनी-1, तहसील एवं जिला गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित।		
	ऋग खाता सं. LNCGCKKDTL0000004198 रुपये 62,40,985/- (रुपये बासठ लाख चालीस हजार नी सौ पिचासी मात्र) 07.12.2021 तक तथा प्रयोज्य भावी ब्याज		इं-नीलामी की विधि : 20.09,2022 (3:00 बजे अप. से 4:00 बजे अप.) केवाईसी सहित ईएमडी जमा करने की अन्तिम विधि : 19.09,2022 तिशिषण की विधि : 17.09,2022	

बिक्री के विस्तत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड प्रतिभृत लेनदार की वेबसाइट www.Capriglobal.in/auction/ में प्रावधानित लिंक का सन्दर्भ लें। ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शर्ते

1. सम्पत्ति की बिक्री ''जहाँ है जैसे है, जो है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर की जा रही है। क्योंकि बिक्री बिना किसी वारंटी तथा इंडेम्निटी के है।

2. ई-नीलामी बिक्की सचना में सम्पत्ति/आस्तियों के विवरण (जैसे विस्तार तथा माप) प्रतिभृत लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लिखे गये हैं और प्रतिभृत लेनदार किसी त्रृटि, गलत बयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार तथा माप में अन्तर हो सकता है।

3. प्रतिभूत लेनदार द्वारा निर्गत ई-नीलामी बिक्री सुचना अपनी संविदाएँ जमा करने हेतु जनसामान्य के लिए एक आमन्त्रण है और प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में कोई प्रतिबद्धता या प्रतिनिधान नहीं नहीं निर्मित करती है और न करती हुई मानी जायेगी। इच्छुक संविदाकारों को अपनी संविदा/एँ जमा करने से पूर्व सम्पत्ति/आरितयों के स्वामित्व तथा वर्तमान दशा एवं सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकायों के विषय में अपना स्वतन्त्र पूछताछ/इयु डिलिजेंस संचालित करने की सलाह दी जाती है।

4. नीलामी केवल वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' में अथवा सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रावधानित ऑक्शन टाइगर मोबाइल एप के माध्यम से संचालित की जायेगी जो ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीलामी की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था तथा समन्वयन करेंगे।

5. संविदाकार अपने मनचाहे स्थान से संविदा हेतु ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था संविदाकार को स्वयं सुनिश्चित करनी होगी। प्रतिभृत लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट

कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्या, सिस्टम क्रैश डाउन, पॉवर फेल्योर आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। 6. विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन बोली के लिए सम्भावित संविदाकार सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ऑक्शन टाइगर, अहमदाबाद (सम्पर्क नं.

079-079-68136880/68136837), श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297. ई-मेल : ramprasad@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं। 7. ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने के लिए इच्छुक संविदाकार को अग्रिम रूप से अपना नाम https://sarfaesi.auctiontiger.net पर पंजीकृत कराना होगा और यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त

करना होगा। इच्छक संविदाकारों को सेवा प्रदाता हारा प्राप्त होने के तुरन्त बाद अपना पासवर्ड बदल लेने की सलाह दी जाती है।

8. ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकार को आरक्षित मूल्य के 10% की प्रतिदेय ईएमडी जमा करनी होगी जो 19 सितम्बर, 2022 को या इससे पूर्व ''कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड'' के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से जमा करनी है।

9. इच्छुक संविदाकार ईएमडी के प्रति डिमाण्ड ड्राफ्ट रेमिटेंस सहित विधिवत भरे संविदा प्रपत्र (प्रारूप https://sarfaesi.auctiontiger.net पर उपलब्ध है) एक मुहरबन्द लिफाफे में अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड को सम्बोधित, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. उबी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 के पास अधिकतम 19 सितम्बर, 2022 को 03.00 बजे अप. तक भेजने हैं। मुहरबन्द लिफाफे पर "कर्जदार का नाम" की सम्पत्ति हेतु ऋण खाता सं. (जैसा ऊपर उल्लिखित है) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु संविदा" लिखना

होना चाहिए। 10. ईएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि समाप्त होने पर अधिकृत प्राधिकारी प्राप्त संविदाओं की जाँच करेंगे और क्वालिफाइड संविदाकारों (जिन्होंने आरक्षित मुल्य से अधिक अपने कोट किये हैं और प्रतिभत लेनदार के पास निर्दिष्ट ईएमडी जमा कर दी है) के विवरण की पष्टि सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास करेंगे ताकि केवल वे ही संविदाकार ऑनलाइन इंटर-से बोली/नीलामी प्रक्रिया में ई-नीलामी बिक्री सुचना में उल्लिखित तिथि एवं समय पर भाग ले सकें।

11. क्वालिफाइड संविदाकारों के मध्य इंटर-से बोली क्वालिफाइड संविदाकारों द्वारा उच्चतम कोट की गयी बोली से प्रारम्भ होगी। इंटर-से बोली प्रक्रिया के दौरान "10" मिनट प्रत्येक का असीमित विस्तार समय होगा अर्थात यदि बोली अन्तिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर लगायी जाती है तो ई-नीलामी बोली का अन्तिम समय प्रत्येक बार स्वतः ही 10 मिनट बढ़ जायेगा।

12. एक बार लगाई गयी बोली निरस्त नहीं होगी। संविदाकार को प्रदत्त यूजर आईडी से लगायी गयी बोली केवल उसी के द्वारा लगायी गयी मानी जायेगी।

13. ई-नीलामी प्रक्रिया बन्द होने के तुरन्त बाद उच्चतम संविदाकार ई-मेल द्वारा अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट सं. 3बी, दूसरी मंजिल, पूसा रोड, नई दिल्ली-110005 तथा सेवा प्रदाता के पास ई-नीलामी प्रक्रिया में सफल संविदाकार घोषित होने के लिए अपने हारा कोट की गयी अन्तिम संविदा राशि की पुष्टि ई-मेल हारा करेगा।

14. सफल संविदाकार को अपने पक्ष में होने पर संविदा राशि का 25% (ईएमडी सहित) बिक्री के 24 घण्टे के भीतर जमा करना होगा तथा शेष 75% राशि कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वारा बिक्री की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। 15. सफल संविदाकार/नीलामी केता द्वारा निर्धारित समय में उपर्यक्त निर्दिष्ट राशियों का भगतान करने में चक करने पर बिक्री निरस्त कर दी जायेगी और पहले से जमा राशि (ईएमडी सहित) जब्त

कर ली जायेगी और सम्पत्ति को पनः बिक्री पर रखा जायेगा। 16, सफल संविदाकार के निवेदन पर अधिकृत प्राधिकारी अपने विवेक से संविदा राशि का शेष भाग जमा करने हेत लिखित में अधिक समय की स्वीकृति दे सकते हैं।

17. सफल संविदाकार बिक्री मुल्य का 1% टीडीएस (बिक्री कार्यवाहियों में से) अदा करेगा और अधिकृत प्राधिकारी के पास टीडीएस प्रमाणपत्र जमा करेगा तथा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने की तिथि से 15 कार्यकारी दिनों के भीतर अथवा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर किसी अन्य विस्तारित तिथि तक ईएमडी समायोजित करने के पश्चात बिक्री मुल्य की सम्पूर्ण राशि (1% टीडीएस कटौती को घटाकर) जमा करनी होगी जिसमें असफल रहने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

18. नगर निगम/पंचायत कर, बिजली के बकाये (यदि कोई) तथा किसी अन्य प्राधिकरण के बकाये (यदि कोई) का भुगतान बिक्री प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल संविदाकार को करना होगा।

संविदाएँ सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त विधिक बकायों पर विचार करते हुए तैयार की जायेंगी। 19. बिक्री प्रमाणपत्र सम्पर्ण क्रय राशि/संविदा राशि जमा करने तथा सम्पर्ण करों/प्रभारों के भगतान के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक प्रमाण का उल्लेख करने के उपरान्त ही सफल संविदाकार के पक्ष में

अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी।

20. कन्वीएंस, स्टैम्प शुल्क, पंजीकरण प्रभार एवं अन्य आकरिमक प्रभारों हेतु प्रयोज्य विधिक प्रभारों का वहन नीलामी क्रेता हारा किया जायेगा।

21. अधिकृत प्राधिकारी बिना कोई कारण बताये ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया को स्थिगत/निरस्त कर सकते हैं। यदि ई-नीलामी बिक्री निर्धारित तिथि के 15 दिनों से पूर्व किसी बाद की तिथि को स्थिगत

22. अधिकृत प्राधिकारी का निर्णय अन्तिम, बाध्यकारी तथा प्रश्नचिहन रहित होगा।

23. संविदाएँ जमा करने वाले समस्त संविदाकारों के लिए माना जायेगा कि उन्होंने ई-नीलामी बिक्री के नियम एवं शतों को पढ़ और समझ लिया है और वे उनसे सहमत हैं।

के लिए सुश्री कल्पना चेतनवाला-7738039346. 25. यह प्रकाशन उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित होने के विषय में प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के अनुसार कथित उपर्युक्त ऋण खाते के

कर्जदार/बंधककर्ता/जमानतियों हेतु 15 (पन्द्रह) दिनों की सूचना भी है।

विशेष निर्देश/चेतावनी : अन्तिम मिनट/सेकण्ड में बोली लगाने से संविदाकार स्वयं के हित में बचें। न तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता ऐसे मामलों में संविदाकार के पक्ष पर किसी खामी/फेल्योर (इंटरनेट फेल्योर, पॉवर फेल्योर आदि) के लिए उत्तरदायी होंगे। ऐसी विषम परिस्थिति से बचने के लिए संविदाकार समस्त आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प जैसे बैक-अप पॉवर सप्लाई तथा जो कुछ भी अन्य अपेक्षित हो, कर ले ताकि वे ऐसी विषम परिस्थित से निपट सके और नीलामी में सफलतापूर्वक

ह./- (अधिकत प्राधिकारी) कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड स्थान : दिल्ली/गुरुग्राम तिथि : 03.09.2022

विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड

VISTAAR CIN: U67120K1991PTC059126, RBI पंजीकरण क्र.: B-02.00251

पंजीकत कार्यालयः प्लाट नंबर 59 और 60 -23, 22nd क्रॉस. 29 मैन. BTM लेआउट, 2nd स्टेज, बॅगलोर-560076

शाखा स्थानातरण की सूचना

बिल्डिंग नंबर प्लॉट नं.5 जी - 34ए, 2री मंज़िल, बग्गा कॉम्प्लेक्स, एन आई टी 5, फरीदाबाद - हरियाणा -121001 , स्थित शाखा कार्यालय को प्ररिवालन कारणों एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करने की सचना एतदारा दी जा रही है। किसी भी दावे / बकाया शिकायत के लिए, हितधारकों से अनरोध है कि वे नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें :

पता : विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड.. 5 ई / 9 बी पी, 1ली मंज़िल, एन आई टी रेलवे रोड, फरीदाबाद, हरियाणा - 121001

मोबाइल नं : 7307873024/8923854366 ई-मेल :bm.faridabad@vistaarfinance.com विस्तार फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

durgesh.giri@vistaarfinance.com हस्ता/-अधिकृत हस्ताक्षरी स्थान : बैंगलोर

जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड

[CIN No. L65923UP2012PLC0514331 पंजीकृत कार्यालयः 19 कि.मी., हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पी.ओ. गुलावथी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203408 कार्यालयः प्लॉट नं. 12,लोकल शॉपिंग कॉम्प्लैक्स, सेक्टर-बी-1 वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070, दूरभाष: (011) 40322100

वेबसाईटः www.jindalpoly.com, ईमेल : cs jpifcl@jindalgroup.com सार्वजनिक सूचना : 10 वीं वार्षिक आम सभा

सचित किया जाता है कि जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (''कम्पनी'') की 10 वीं वार्षिक आम सभा ("एजीएम") सबी द्वारा जारी सर्क्यूलर नं. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/ 2022/62 तिथि 13 मई, 2022 के साथ पठित पूर्व वर्षों में इस संदर्भ में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी साधारण सर्क्युलर्स 2/2022 तिथि 5 मई, 2022 तथा 19/2021 तिथि 8 दिसम्बर, 2021 तथा अन्य सर्क्युलर्स (यहाँ के बाद सामृहिक रूप से सर्क्युलर्स' वर्णित) के अनुपालन में विडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा आयोजित की जाएगी।

उक्त सर्क्यलर्स के अनुपालन में वित वर्ष 2021-22 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ ई-एजीएम तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया (दोनों रिमोट एवं इन्स्टा) में भाग लेने की प्रक्रिया से शामिल एजीएम की सुचना नियत समय पर इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति से ऐसे सदस्यों को भेजी आएगी जिनके ईमेल पते कम्पनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट (डीपी) के पास पंजीकृत हैं तथा साथ ही वह कम्पनी की वेबसाईट www. jpifcl.com तथा स्टॉक एम्सचेंजों की वेबसाईट अर्थात नेशनल स्टॉक एम्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, (एनएसई) www.nseindia.com तथा बीएसई लिमिटेड www. bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के द्वारा ही एजीएम में भाग ले सकते हैं तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया (दोनों रिमोट एवं इन्स्टा) में भाग लेने की प्रकिया के साथ उसके विवरण कम्पनी द्वारा एजीएम की सचना में उपलब्ध कराई जाएगी। वीसी/ओएवीएम द्वारा सभा में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी, अतः सदस्यों से आग्रह है कि निम्न प्रक्रिया का अनुसरण कर अपना ईमेल पता पंजीकत/अद्यतन करा लें। भौतिका जिन सदस्यों ने कम्पनी के पास अपने ईमेल पते पंजीकृत/अघतन नहीं कराये हैं, से आग्रह है कि इलेक्ट्रॉनिक

धारिता रूप से सचना प्राप्त करने के लिये ईमेल पता. मोबाइल नम्बर, पैन की स्वतः सत्यापित-प्रति तथा उनके ईमेल पते के पंजीकरण तथा उनके द्वारा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम सूचना तथा ई-वोटिंग निर्देशों को प्राप्त करने के लिये शेयर प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध कराते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित स्केन की गई प्रति के साथ लिंक https:// ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर क्लिक कर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड के पास अपना einward.ris@kfintech.com पर ई-मेल अनुरोध भेज कर अपना ईमेल पता पंजीकृत अद्यतन करा लें

उपर्यक्त सचना कम्पनी के सभी सदस्यों की सचना और लाभ के लिए निर्गत की जा रही है और यह एमसीए परिप

भौतिक अपने संबंधित डीपी के परामर्श से प्रक्रिया के अनुसार अपनी डिमैट खाता में विवरणों को पंजीकृत/अद्यतन कराएं

(त्रों) तथा सेबी परिपत्र के अनुपालन में है। कृते जिन्दल पॉली इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड तिथि: 01.09.2022 घनश्याम दास सिंघल

(प्रबन्ध निदेशक

यनिवर्सस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

साआइएन : L22222UP2011PLC103611

पंजीकृत कार्यालयः 19 किमी, हापुड़-बुलन्दशहर रोड, पो.ऑ. गुलावठी, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश-203408

कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 12, सेक्टर-बी-1, लोकल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110 070 दुरभाष : (011) 40322100, ई-मेल आईडी : cs uphoto@universusphotoimagings.com, वेबसाइट : www. universusphotoimagings.com सार्वजनिक सचना-11वीं वार्षिक आम बैठक

यह सुचित किया जाता है कि सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62

दिनांक 13 मई, 2022 के साथ पठित इस संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपर 2/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 एवं इस सम्बन्ध में गत वर्ष में जारी अन् परिपत्रों (इसके बाद सामृहिक रूप से 'परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में यूनिवर्सस फोटो इमेजिंग लिमिटे ('कंपनी') की 11 वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को शाम 4:30 बजे वीडिये कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उक्त परिपत्रों के अनुपालन में, ई-एजीएम और ई-वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट और इंस्टा दोनों) में भाग लेने के तरीवे

सिंहत 30 अगस्त, 2022 को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट, केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा जाएगा, जिनके ईमेल प कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ पंजीकृत हैं और यह कम्पनी की वेबसाइट www.uni versusphotoimagings.com तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com और बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं और इसमें भाग ले सकते हैं. जिसक

विवरण कंपनी द्वारा एजीएम की सूचना में ई-वोटिंग प्रक्रिया (रिमोट और इंस्टा दोनों) में भाग लेने के तरीके के साथ प्रदान किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना अधिनियम की धार 103 के तहत गणपूर्ति के उद्देश्य से की जाएगी और इसलिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया क पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत/अपडेट करें:

भौतिक जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते कम्पनी के साथ पंजीकृत/अपडेट नहीं किये हैं वे ई-मेल पते, मोबाइल धारिता नम्बर, पैन की स्व-सत्यापित प्रति तथा शेयर प्रमाणपत्र की प्रति के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराने हेतु तथा वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग निर्देश प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप् करने हेतु इसे कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.as px लिंक पर क्लिक करके या ई-मेल आईडी einward.ris@kfintech.com पर निवेदन

भेजकर इसे पंजीकृत करा सकते हैं। डीमें ट अपने सम्बन्धित डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमेट खाते में विवरण पंजीकृत/अपडेट

उपरोक्त सूचना कंपनी के सभी सदस्यों की जानकारी और लाभ के लिए जारी की जा रही है और यह एमसीए परिपर और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है।

कृते युनिवर्सस फोटो इमेजिंग्स लिमिटेड

स्थानः नर्ड दिल्ली सुरेश कुमा कंपनी सचिव

> डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड सीआईएन : L52110DL1984PLC019625

पंजीकृत कार्यालय : दुकान नं. 325, तीसरी मंजिल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085

वेबसाइट : www.dirl.in | ई-मेल : deltaindltd@gmail.com | दूरभाष नं. 011-27860681

वार्षिक आम बैठक

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड (''कम्पनी'') के सदस्यों की 37वीं वार्षिक आम बैठक मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 11.00 बजे अप. में दुकान नं. 325, तीसरी मंजिल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 (''बैठक'') पर आयोजित की जायेगी।

बैठक आयोजित करने की सूचना सहित वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट सदस्यो के पास उनके पंजीकृत पते पर कोरियर द्वारा तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन सदस्यों के पास जिन्होंने अपने ई-मेल पते डिपॉजिटरी/कम्पनी के साथ पंजीकृत कराये हैं, भेज दी गयी है। सूचना सहित वित्त वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट (www.dirl.in) तथा निरीक्षण हेतु बैठक की तिथि तक रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश को छोडकर व्यवसाय घण्टों के दौरान सभी कार्यदिवसों पर कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर भी उपलब्ध है।

यह कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों (''ई-वोटिंग'') द्वारा बैठक में पारित होने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने मताधिकार का उपयोग करने की सविधा अपने सदस्यों को उपलब्ध करा रही है। सदस्य बैठक के स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके अपना मतदान कर सकते हैं कम्पनी ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएँ ग्रहण की है। अन्य बातों के साथ-साथ बैठक आयोजित करने की सूचना की प्रति सहित यूजर आईडी तथा पासवर्ड एवं रिमोट ई-वोटिंग से सम्बन्धित सम्पर्क सदस्यों के पास भेज दिये गये हैं। ई-वोटिंग हेतु सम्पर्क कम्पनी की वेबसाइट www.dirl.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा शनिवार, 24 सितम्बर, 2022 को 9.00 बजे पूर्वा. प्रारम्भ होगी तथा सोमवार, 26 सितम्बर, 2022 को 5.00 बजे अप. समाप्त होगी। उपर्युक्त तिथि एवं समय के उपरान्त रिमोट ई-वोटिंग की अनुमित नहीं होगी। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 तक

सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल ही रिमोट ई-वोटिंग/बैठक में वोटिंग के पात्र होंगे। कोई व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है

और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अन्य बातों के साथ-साथ evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकत है। यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी उपलब्ध है जो कम्पनी की वेबसाइट तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। यदि सदस्य ई–वोटिंग हेतु पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान हेत अपने वर्तमान युजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है वे भी बैठक में उपस्थित

रह सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान के पात्र नहीं होंगे। रिकार्ड तिथि

एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके तहत प्रयोज्य नियमों के

अनुसार सूचना दी जाती है कि वार्षिक आम बैठक में मतदान के पात्र सदस्यों के निर्धारण के उद्देश्य से कम्पनी ने मंगलवार, 20 सितम्बर, 2022 को ''रिकार्ड तिथि'' के रूप में निर्धारित किया है। निदेशक मंडल के आदेश से

तिथि : 2.9.2022

स्थान : नई दिल्ली

पवन कुमार मित्तल DIN: 00749265

कते डेल्टा इंडस्टियल रिसोर्सेज लिमिटेड

सार्वजनिक उदघोषणा

िभारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत] आईबिज कन्सल्टैन्सी सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का U72200DL2008PTC39297 दक्षिण दिल्ली डीएल 110019 आईएन प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता होने की तिथि नम्बर तथा पंजीकरण संख्या पंजी. सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00361/ 2021-22/13756 पताः ए-25ए, एलजीएफ, लाजपत नगर-Ⅱ, नई दिल्ली-110024, टेली. नं. 011-45552681, मोबाईल नं.: 9868476717, ईमेल आईडी: ip.gunjanmittal@gmail.com, ibizliquidator@gmail.com

एतदहारा सुचित किया जाता है आईबिज कन्सल्टैन्सी सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने 01.09.2022 को स्वैच्छिक

एतदृद्वारा आईबिज कन्सल्टैन्सी सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर परिसमापक के पास 30.9.2022 को या उससे पर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्टॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत. डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। तिथि: 01.09.2022 स्थानः नई दिल्ली आईबिज कन्सल्टैन्सी सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

आईपी पंजी. सं.: IBBI/IPA-003/IP-N00361/ 2021-22/13756

माबेल सिटी इंडिया लिमिटेड

(पूर्व में पीजी इंडस्ट्री लिमिटेड विदित) ए-30, एस-11, दूसरा तल, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048

CIN: L74899DL1993PLC056421 ई-मेल: pgindustryltd@gmail.com; वेबसाईट: www.pgil.com उन्तीसवीं वार्षिक आम सभा की सचना (कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सर्क्यूलर नं. 17/2020 तिथि 13.4.2022 के अनुपालन में) कोविड-19 महामारी के अनवरत प्रसार को देखते हुए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') ने अपने सर्क्युलर तिरि

अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा एजीएम के आयोजन की अनुमति दी है। इन सर्क्युलरों तथ कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 201 के अनुपालन में कम्पनी की आगामी एजीएम मंगलवार, 27 सितम्बर, 2022 को 4.00 बजे अप. में वीसी/ओएवीएम द्वारा आयोजित की जायेगी। उपरोक्त सर्क्युलर के अनुसार एफवाई 2021-2022 के वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसे सदस्यों को भेजे जाने की अनुमित है जिनके ईमेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पहले से ही पंजीकृत है। कम्पनी पूर्व के व्यवहारों की तरह ही अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग की सविधा उपलब्ध करा रही है। यदि आपका ई-मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास पहले से ही पंजीकृत हैं, तो एफवाई 2021-22 के वार्षिक

रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लिये लॉगिन विवरणों के साथ एजीएम की सचना आपके पंजीकत ई-मेल पते पर भेज

8 दिसम्बर, 2021, 14 दिसम्बर, 2021 तथा 5 मई, 2022 से साथ पठित सर्क्युलर तिथि 13 जनवरी, 2021, 5 मई

2020, 8 अप्रैल, 2020 तथा सर्क्युलर तिथि 13 अप्रैल, 2020 के माध्यम से विडियो कान्फ्रेंस (''वीसी'') अथव

जायेगी। यदि आपने कम्पनी/डिपॉजिटरी के पास अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं कराये हैं तो कृपया एफवा 2021-2022 के वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग के लॉगिन विवरणों को प्राप्त करने के लिये अपना ई-मेल आईड पंजीकत करायें। भौतिक। ई-मेल पते के पंजीकरण के लिये फोलियो नम्बर शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की रकैन की गई प्रति (फ्रान्ट तथा बैक), पैन (पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित स्कैन प्रति, आधार (आधार कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन की गई प्रति को उपलब्ध कराते हुए info@masserve.com पर कम्पनी के रजिस्ट्रा

कृपया (यदि वह पहले से पंजीकृत नहीं हो) फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ मूल निरस्त चेक के साथ अपने बैंक का विवरण हमारे आस्टीए (अर्थात एमएएस सर्विसेस लिमिटेड, टी-34, 27 तल, ओखला इंडस्टियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली) के पास अनरोध भेजें। डीमैट | कपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट (डीपी) से सम्पर्क करें तथा डीपी की सलाह के अनसार अपना

तथा शेयर अंतरण एजेन्ट्स एमएएस सर्विसेस लिमिटेड के पास अनुरोध भेजें।

धारिता ई-मेल पता पंजीकृत कराऐं।

कृपया 15.9.2022 को या पूर्व उसे अद्यतन करा लें। एजीएम की सूचना तथा एफवाई 2021–2022 का वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.pgil.com तथा बीएस

लिमिटेड की वेबसाईट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सभा में उपस्थि होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के उद्देश्य से की जायेगी। मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड के लिख

तिथि: 2.9.2022 देवेन्दर कुमा स्थानः नई दिल्ली कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार

भारत भूषण फाइनैस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेंड गंजीकृत कार्यालय : 503, रोहित हाउस, 3 टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली—110001 सीआईएन—**L67120DL1992PLC049038**), फोन नंबर : 011—49800900, फैक्स : 011—49800933 ई-मेल : commodities@bharatbhushan.com वेबसाइट : www.bbinvestments.in

तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और ई-वोटिंग की जानकारी

एतदद्वारा सचना दी जाती है कि भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों की तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"), बुधवार, 28 सितम्बर 2022 को मध्या. 12.00 बजे भारतीय मानक समय ("आईएसटी"), वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, कम्पनी अधिनियम, 2013 "अधिनियम") के सभी लागू प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमों तथा के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14 / 2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 17 / 2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020, जनरल सर्कुलर नंबर 02/2021 दिनांकित 13 जनवरी 2021 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 02 / 2022 दिनांकित 05 मई, 2022 और अन्य लागू सर्कुलर्स, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीबद्वता बाध्यतीए दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ('सूचीयन विनियमावली') और सेबी सर्कुलर नंबर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी२ / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांकित 13 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'संबद्ध सर्कुलर्स' कहे गए हैं) के अनुपालन में एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग लें रहे सदस्यों की गणना अधिनियम की धारा 103 के तहत गणपूर्ति के प्रयोजनार्थ की जाएगी। संबद्ध सर्कुलर्स के अनुपालन में, एजीएम की सूचना दिनांकित 04 अगस्त, 2022 तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है, उसके साथ संलग्न किए जाने हेत् अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा शुक्रवार, 02 सितम्बर, 2022 को कम्पनी के उन सदस्यों को 'प्रेषित' की जा चुकी हैं जिनका ई—मेल पता कम्पनी अथवा डिपॉजिटरियों / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत है। उपरोक्त दस्तावेज कम्पनी की वैबसाइट www.bbinvestments.in पर तथा स्टॉक एक्सचेंजेज नामतः बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर तथा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

ई-मेल पता पंजीकरण / अद्यतनीकरण की विधि क) भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों हेतु: क्यया विधिवत रूप से भरा हुआ फॉर्म ISR-1 आवश्यक दस्तावेजों सहित, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय : 503, रोहित हाउस, 3, टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001 को अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट नामतः मैससं अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड, 205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 को भेजें। फॉर्म ISR-1 कम्पनी की वेबसाइट

www.bbinvestments.in पर उपलब्ध है। (ख) डीमैट रूप में शेयरों के धारक हेतु: कृपया अपना ई-मेल पता अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी ("डीपी") के पास पंजीकृत / अद्यतित करवाएं।

अधिनियम की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014, समय समय पर संशोधित, के नियम 20 तथा सूचीयन विनियमावली के विनियम 44 और संबद्ध सर्कुलर्स के अनुसरण में, कम्पनी अपने सदस्यों को एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डालने की सुविधा उपलब्ध करा रही है तथा एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पादन इस ई-वोटिंग द्वारा किया जा सकता है। कम्पनी ने संदरयों को रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा और वीसी /ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले रहे सदस्यों को ई-वोटिंग की सुर्विद्या प्रदान करने हेत् एनएसडीएल के साथ अनुबंध किया है। डीमैट रूप में, भौतिक रूप में शेयरों के धारक सदस्यों तथा जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता पंजीकृत नहीं करवाया है, उनके लिए रिमोट ई–वोटिंग, एजीएम के दौरान ई–वोटिंग अथवा वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम से जुड़ने की प्रक्रिया और विधि एजीएम की सुचना में दी

हम आगे सूचित करते हैं कि : रिमोर्ट ई-वोटिंग अवधि रविवार 25 सितम्बर, 2022 को प्रातः 09.00 बजे आईएसटी पर आरंभ होगी तथा मंगलवार 27 सितम्बर, 2022 को सायं 05.00 बजे आईएसटी (दोनों दिन सम्मिलित सहित) पर समाप्त होगी, इस अवधि के दौरान सदस्यगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक विधि से डाल सकते हैं। तद्परांत, एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

कम्पनी ने ई-वोटिंग के लिए सदस्यों की योग्यता निश्चित करने के लिए 21 सितम्बर,

2022 "कट-ऑफ" तिथि निर्धारित की है। कोई व्यक्ति जिसका नाम डिपॉजिटरी द्वारा

अनुरक्षित लाभार्थी खामियों के रजिस्टर अथवा सदस्यों के रजिस्टर में, कट—ऑफ तिथि को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही व्यक्ति रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा तथा एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोटिंग का हकदार होगा।

सदरयों के वोटिंग अधिकार, कम्पनी की प्रदत्त इक्विटी पूंजी में उनके द्वारा बुधवार, 21 सितम्बर, 2022 ("कट-ऑफ तिथि") को धारित इक्विटी शेयरों के अनुपात में होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-बोटिंग हारा अपना बोट नहीं डाला है, वे एजीएम में ई-बोटिंग

के माध्यम से अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। जो सदस्य एजीएम से पहले अपना बोट रिमोट ई-बोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, परंतु उनको एजीएम में पुनः वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। कोई व्यक्ति जो कि एजीएम की सूचना के प्रेषण के पश्चात कम्पनी के शेयरों का

अधिग्रहण करता है तथा कम्पनी का सदस्य बनता है और जो कट-ऑफ तिथि अर्थात ब्धवार, 21 सितम्बर, 2022 को शेयरों का धारक होता है, वह evoting@nsdl.co.in अथवा commodities@bharatbhushan.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है और ऐसा व्यक्ति इस प्रयोजन हेतु एजीएम की सुचना का संदर्भ भी ग्रहण कर सकता है।

रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह अथवा शिकायत की स्थित में, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com पर "डाउनलोड सेक्शन" के अन्तर्गत उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्कड क्वेशचन्स (एफएक्यू'ज) का संदर्भ ग्रहण कर सकते हैं अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक अथवा सुश्री सोनी सिंह, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चतुर्थ तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400 013 से नामित ई-मेल आईडी evoting@nsdl.co.in अथवा pallavid@nsdl.co.in अथवा टोलफ्री नंबर 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर सम्पर्क कर सकते हैं. जिनके द्वारा इलेक्टॉनिक साधनों द्वारा

वोटिंग के साथ संबंधित शिकायतों का निवारण किया जाएगा। कम्पनी ने सुश्री कविता पम्मानी, स्वामिनी मैसर्स कविता पम्मानी ऐंड एसोशिएटस, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरीज (सदस्यता सं. एफ 6288 तथा सीपी सं. 11099) को ई—बोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा एक निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करने हेतु संवीक्षक नियुक्त किया है। कते एवं हिते निदेशक मंडल

भारत भूषण फाइनैंस ऐंड कमोडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड

निशा आह्जा

तिथि : 02 सितम्बर, 2022 स्थान : नई दिल्ली डीआईएन : 00001875

की जाती है तो उसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। 24. अधिक विवरण एवं पूछताछ के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, श्री सुशील गुप्ता, मोबाइल नं. 7400445137 तथा अन्य पूछताछ







www.readwhere.com